



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 05.10.2020

1-थाना दादरी पुलिस व लूटेरे(25000 के इनामी) के बीच हुई पुलिस मुठभेड, मुठभेड़ में एक इनामी लूटेरा गोली लगने से घायल/गिरफ्तार,कब्जे अवैध शस्त्र व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद :

दिनांक 05.10.2020 को थाना दादरी पुलिस व शातिर लूटेरे के बीच दादरी बाईपास नार्थलैंड पुल के पास हुई पुलिस मुठभेड़ मुठभेड़ के दौरान 25000 के इनामी लूटेरे दुर्वासा पुत्र धर्मसिंह निवासी नई बस्ती बैरंग पुर थाना दादरी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है बदमाश के कब्जे से एक तमंचा315 बोर दो जिंदा कारतूस 315 बोर व खोखा कारतूस बरामद। अभियुक्त थाना दादरी पर पंजीकृत लूट के मुकदमे में वांछित था।

अभियुक्त का विवरण-

1. दुर्वासा पुत्र धर्मसिंह निवासी बैरंग पुर नई बस्ती थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ. सं. 123/2012 धारा 147/148/149/302/120बी/384/34 भादिवि थाना जारचा गौतमबुद्धनगर
2. मु.अ. सं. 152/2012 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना जारचा गौतमबुद्धनगर
3. मु.अ. सं. 216/2015 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
4. मु.अ. सं. 142/2020 धारा 392/411 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. एक तमंचा 315 बोर दो जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस
2. एक चोरी की मोटर साइकिल हीरो स्पेलेंडर

2- थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 02 हत्या अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से हत्या मे प्रयुक्त एक तकिया, हत्या करने के पश्चात शव के ऊपर रखा कम्बल बरामद :

दिनांक 05.10.2020 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा हत्या अभियुक्ता 1. श्रीमती पिंगी पत्नी ललित
2. श्रीमती रिंकी पत्नी निवासी गण ग्राम खेडी भनौता थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया है ।

दिनांक 29.09.2020 को ग्राम खेडी भनौता मे अपने मायके आयी श्रीमती सपना पत्नी सोनू पुत्री आशाराम का दो साल का बच्चा भव्यांश गायब हो गया था। जिसकी सूचना मिलने पर थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0 717/2020 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था। उसी दिन समय लगभग रात्रि के 23.30 बजे बच्चे का शव उसकी छोटी मामी रिंकी पत्नी सुमित उपरोक्त के कमरे में एक वार्डरोब में एक कम्बल मे ढका हुआ मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बच्चे भव्यांश की दम घुटने से मौत हुई थी। मुकदमा उपरोक्त को धारा 302/201 भादवि मे तरमीम किया गया। थाना बिसरख पुलिस द्वारा साक्ष्य के आधार पर संदिग्ध श्रीमती पिंगी पत्नी ललित तथा रिंकी पत्नी सुमित जो सगी बहने है तथा दोनो, मृत बच्चे भव्यांश की सगी मामी है, पूछताछ मे हत्या करना स्वीकार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

1. श्रीमती पिंगी पत्नी ललित श्रीमती रिंकी पत्नी निवासी ग्राम खेडी भनौता थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर
2. श्रीमती रिंकी पत्नी निवासी ग्राम खेडी भनौता थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 717/20 धारा 302/201 भादवि थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर

बरामदगी विवरण-

1. हत्या मे प्रयुक्त एक तकिया
2. हत्या करने के पश्चात शव के ऊपर रखा कम्बल

3- थाना जेवर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 05.10.2020 को थाना जेवर पुलिस द्वारा अभियुक्त रिजवान उर्फ रज्जो पुत्र उस्मान खां को मैन चौराहा कस्बा जेवर से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त द्वारा दिनांक 04.10.2020 को पुरानी अनाज मण्डी जेवर में नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। जिसके संबंध में मु0अ0स0 456/20 धारा 354/504/506 भादवि व पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त का विवरण-

1. रिजवान उर्फ रज्जो पुत्र उस्मान खां निवासी मोहल्ला पुरानी अनाज मंडी कस्बा व थाना जेवर जिला गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0स0 456/2020 धारा 354/504/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0स0 417/2020 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।

4- थाना कासना पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का फोन बरामद :

दिनांक 05.10.2020 को थाना कासना पुलिस द्वारा मु0अ0स0 295/2020 धारा 380/411 भादवि के वांछित अभियुक्त सतीश कुमार पुत्र रामशरन गुप्ता निवासी सुसूडा थाना परसपुर जिला गोण्डा वर्तमान पता राहुल का मकान गांव सिरसा थाना कासना गौतमबुद्धनगर को एशियन पेन्ट कम्पनी के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमे से सम्बन्धित चोरी का मोबाइल रेडमी नोट-7 रंग नीला ई0एम0ई0आई नं0- 865179048903013 व - 865179048903021 बरामद किया गया है ।

अभियुक्त का विवरण-

सतीश कुमार पुत्र रामशरन गुप्ता निवासी सुसूडा थाना परसपुर जिला गोण्डा वर्तमान पता राहुल का मकान गांव सिरसा थाना कासना गौतमबुद्धनगर

आपराधिक इतिहास का विवरण:

मु0अ0स0 295/2020 धारा 380/411 भादवि

बरामदगी का विवरण:

01 मोबाइल रेडमी नोट-7 रंग नीला आई0एम0ई0आई0 नं0- 865179048903013 व
865179048903021